



जालसाजी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, ₹0 700000 नगद, 01 टाटा कार व 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी" हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 18-09-2020 को श्री राम अशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक थाना शोहरतगढ़ मय टीम एवं उ0नि0 श्री पंकज कुमार पाण्डेय, प्रभारी एसओजी0 मय टीम द्वारा मु0अ0सं0 245/2020 धारा 406, 420 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सफीक पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम बोहली थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर आदि 03 नफर अभियुक्तगण को सिसवां बोहली मार्ग, रेलवे क्रॉसिंग से समय प्रातः 04:35 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के पास से ₹0 700000 नगद, घटना में प्रयोग की गयी 01 अदद टाटा अरिया कार रजि0 नं0 UP14 BB 5560 व 01 अदद मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP55 AC 2398 (दोनो नं0 बदला हुआ), एवं 04 अदद मोबाइल बरामद हुआ। कार का सही नं0 UP14 BP 5560 व मोटरसाइकिल का सही नं0 UP55 AB 2398 है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 467,468,471 भादवि0 की वृद्धि कर गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विवरण बरामदगी-

- 01- ₹0 700000 (सात लाख) नगद।
- 02- 01 अदद टाटा अरिया कार रजि0 नं0 UP14 BB 5560(नं0 बदला हुआ)।
- 03- 01 अदद मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP55 AC 2398 (नं0 बदला हुआ)।
- 04- 04 अदद मोबाइल (भिन्न-भिन्न कंपनियों का)।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 01- सफीक पुत्र स्व0 सद्दीक निवासी ग्राम-बोहली थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02- रफीक पुत्र गुलाम हुसैन निवासी बोहली थाना शोहरतगढ़, जनपद-सिद्धार्थनगर।
- 03- गुड्डू उर्फ हमीदुर्रहमान पुत्र अब्दुल मतीन निवासी ग्राम-अहिरोली टोला तुलसियापुर, थाना डेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर (हाल मुकाम- सिसवा बाजार थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 01- श्री राम अशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02- उप निरीक्षक श्री पंकज कुमार पाण्डेय, प्रभारी एसओजी0 टीम सिद्धार्थनगर।
- 03- आरक्षी वीरेन्द्र त्रिपाठी, एसओजी0 टीम सिद्धार्थनगर।
- 04- आरक्षी दिलीप कुमार द्विवेदी, सर्विलांस टीम सिद्धार्थनगर।
- 05- आरक्षी विवेक कुमार मिश्र, सर्विलांस टीम सिद्धार्थनगर।
- 06- आरक्षी अवनीश कुमार सिंह, एसओजी0 टीम सिद्धार्थनगर।
- 07- आरक्षी पवन कुमार तिवारी, एसओजी0 टीम सिद्धार्थनगर।
- 08- आरक्षी अखिलेश यादव, एसओजी0 टीम सिद्धार्थनगर।
- 09- आरक्षी मृत्युंजय कुशवाहा, एसओजी0 टीम सिद्धार्थनगर।
- 10- आनन्द प्रकाश यादव, एसओजी0 टीम सिद्धार्थनगर।
- 11- आरक्षी राजीव शुक्ला, एसओजी0 टीम सिद्धार्थनगर।
- 12- आरक्षी रमाशंकर यादव, थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।
- 13- आरक्षी शरद यादव, थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

उक्त सराहनीय कार्य करने पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा नकद पुरस्कार रु 20,000/- से पुरस्कृत किया गया।

02

प्रेस नोट दिनांक 18-09-2020

पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार तिवारी क्षेत्राधिकारी महोदय बांसी के निर्देशन तथा शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में आज दिनांक 18.09.2020 को उपनिरीक्षक श्री हरेंद्र शुक्ला व उपनिरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुंवर मय हमराह के द्वारा शांति भंग व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए 02 अभियुक्तों को धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

03

प्रेस नोट दिनांक 18-09-2020

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 18-09-2020 को जनपदीय पुलिसबल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 213 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 93 वाहनों का चालान कर ₹ 73200/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

04

प्रेस नोट दिनांक 18-09-2020

श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना डुमरियागंज पर सर्किल डुमरियागंज का अर्दली कक्ष/समीक्षा गोष्ठी कर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 18-09-2020 को थाना डुमरियागंज में डुमरियागंज सर्किल के थाना-डुमरियागंज, भवानीगंज, पथरा बाजार एवं त्रिलोकपुर का अर्दली कक्ष/समीक्षा गोष्ठी कर जनपद की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निम्न आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

1. 06 माह से अधिक अवधि से लंबित अभियोगों का विवरण।
2. आईटी अधिनियम के लंबित अभियोगों का विवरण।
3. महिला अपराध (धारा 354,363,366,376 भादवि0 का विवरण)
4. धोखाधड़ी(419,420 भादवि0) के लिए लंबित अभियोगों का विवरण।
5. IGRS पोर्टल पर लंबित मामलों का विवरण।
6. माननीय न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप-पत्र / अंतिम रिपोर्ट का विवरण।
7. उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली -2020 के स्तम्भ-2 की धारा 3,4,5 के उल्लंघन से संबंधित कार्यवाही का विवरण।
8. सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब/मदिरा-पान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
9. वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
10. गिरफ्तारी हेतु शेष चल रहे वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
11. टाप-10 अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
12. चिन्हित गैंग के पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के बारे में जानकारी की गयी।
13. भूमि-विवाद प्रकरण/थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मालों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम,गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया।

उक्त गोष्ठी में श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज एवं थाना-डुमरियागंज, भवानीगंज, पथरा बाजार एवं त्रिलोकपुर के प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्षगण, व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 18-09-2020 को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली गई तथा परेड का निरीक्षण भी किया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा कैण्टीन, रेडियो शाखा, क्वार्टर गार्ड, स्टोर, शस्त्रागार, परिवहन शाखा, एवं भोजनालय का निरीक्षण कर व्यवस्था को चुस्त-दुरस्त बनाये रखने एवं ड्यूटी के दौरान समस्त कर्मचारियों को बावर्दी दुरुस्त रहकर अपनी ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ करते हुये जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा शस्त्रागार में रखे शस्त्रों की साफ-सफाई एवं रख-रखाव की व्यवस्था का भी गहनता से निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर, प्रतिसार निरीक्षक, थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

